



रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा
कक्षा-सात /विषय-हिंदी /२०१७-१८
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए-

वृक्ष जितने बड़े और घनाकार होते हैं, उनका काम भी उतना ही कठिन होता है। इनकी हरियाली आँखों को ठंडक पहुँचाती है। इनसे हमें छाया, शुद्ध हवा, फल, फूल लकड़ियाँ आदि मिलती हैं। पेड़ों के कारण बरसात भी होती है। अनेक प्रकार के पक्षी इन पर घोंसले बनाकर रहते हैं। घरों और बगीचों की सुंदरता पेड़पौधों से बढ़ती है। इतना सब कुछ देने के बावजूद पेड़भी नहीं लेते। इनसे सीख लेकर हमें भी पौधे हमसे बदले में कुछ-दूसरों की भलाई करनी चाहिए।

1. पेड़ों से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं-?

(क) छाया (ख) शुद्ध हवा (ग) फल (घ) लकड़ियाँ

2. पेड़ों के कारण क्या होता है ?

(क) धूप (ख) बरसात (ग) आंधी (घ) वर्षा

3. पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं ?

(क) छत्त पर (ख) पेड़ों पर (ग) फूलों पर (घ) कहीं नहीं

4. हमारी आँखों को कौन ठंडक पहुंचाता है ?

(क) पेड़ों की हरियाली से (ख) फूलों से (ग) छाया से (घ) हवा से

5. बगीचों की सुन्दरता किस से बढ़ती है ?

(क) पक्षियों से (ख) पेड़-पौधों से (ग) छाया से (घ) इनमें से किसी से नहीं

प्र०२. नीचे दिए गये प्रश्नों के सही उत्तर पर (✓) का चिह्न लगाइए -

6. प्रत्येक भाषा की अपनी एक----- होती है?

(क) ज्ञान (ख) भाषा (ग) लिपि (घ) बोली

7. हमारी राष्ट्र भाषा कौन सी है ?

(क) पंजाबी (ख) हिंदी (ग) अंग्रेजी (घ) तेलुगु Type equation here.

8. नेता द्वारा मंच पर भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है?

(क) सांकेतिक (ख) लिखित (ग) मौखिक (घ) इनमें से कोई नहीं

9. हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया ?

(क) १४ सितम्बर (ख) २२ जून (ग) १३ जनवरी (घ) ९ अगस्त

10. संज्ञा के कितने भेद हैं ?

(क) एक (ख) दो (ग) तीन (घ) पाँच

11. 'सुन्दरता' शब्द उदाहरण है-

(क) विशेषण (ख) भाववाचक संज्ञा (ग) जातिवाचक संज्ञा (घ) क्रिया

12. 'विदुर' शब्द का स्त्रीलिंग रूप है-
- (क) विधुरा (ख) विधवा (ग) विधुरी (घ) विधु
13. पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं-
- (क) स्त्रीलिंग (ख) पुल्लिंग (ग) पुरुषवाचक (घ) इनमें से कोई नहीं
14. आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है-
- (क) एकवचन (ख) बहुवचन (ग) विशेषण (घ) इनमें से कोई नहीं
15. एकवचन का उदाहरण है-
- (क) सड़कें (ख) कुर्सियाँ (ग) पंखे (घ) सूरज
16. हिंदी भाषा की लिपि है-
- (क) रोमन (ख) देवनागरी (ग) फ़ारसी (घ) इनमें से कोई नहीं
17. 'कमजोरी' 'इमानदारी' और 'सफलता' शब्द उदाहरण हैं-
- (क) व्यक्तिवाचक संज्ञा (ख) जातिवाचक संज्ञा (ग) भाववाचक संज्ञा (घ) इनमें से कोई नहीं
18. 'हाथ मलना' का अर्थ है -
- (क) शोक मनाना (ख) बहुत पछताना (ग) भाग जाना (घ) सरल काम
19. 'बल' का पर्यायवाची नहीं है -
- (क) बेल (ख) शक्ति (ग) पराक्रम (घ) दम
20. 'आलस्य' शब्द का विलोम है-
- (क) निद्रा (ख) सुस्ती (ग) त्याग (घ) स्फूर्ति